

म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़ (MAAS) परियोजना

एनएसडब्ल्यू सरकार पश्चिमी सिडनी में सही अर्थों में एक प्रतिष्ठित म्यूज़ियम बनाने के लिए 'एप्लाइड कला एवम् विज्ञान संग्रहालय' (म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़ MAAS) के साथ मिल कर काम कर रही है।

यह जीवंत, परस्पर संवादात्मक (interactive) विश्व-स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान विज्ञान और नवीनता की दृष्टि से अत्याधुनिक होगा, जो एनएसडब्ल्यू के सभी लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए खुला होगा। नए म्यूज़ियम के लिए पसंदीदा स्थल पैरामैटा के केन्द्र में स्थित रिवरबैंक स्थल है

योजना एवम् पर्यावरण विभाग नए म्यूज़ियम के लिए विस्तारित बिज़िनिस केस के विकास का प्रबंधन कर रहा है और MAAS के साथ मिलकर काम कर रहा है। विस्तारित बिज़िनिस केस का, जो कि 2017 के अंतिम दिनों में पूरा हो जाएगा, अल्टिमो (Ultimo) में एक कला और सांस्कृतिक स्थान को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है जो कि वर्तमान पावरहाउस म्यूज़ियम में MAAS की कुछ उपस्थिति को बनाए रखने पर विचार करेगा।

आशा है कि पैरामैटा में
नया म्यूज़ियम
2022 में खुल जाएगा



चित्र: म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़। टिन की खिलौना कार।
फ़ोटो: मैरिन्को कोण्डनोवस्की

म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़ (MAAS) परियोजना

अब तक हम जानते हैं...

पश्चिमी सिडनी में एक नया, प्रतिष्ठित विश्व-स्तरीय म्यूज़ियम स्थापित किया जाएगा और जो कि:

- म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़ का प्रमुख कैम्पस होगा
- एनएसडब्ल्यू के लोगों के सहयोग से डिज़ाइन किया गया होगा
- विज्ञान और नवीनता की दृष्टि से अत्याधुनिक होगा
- पैरामैटा में स्थित होगा
- पैरामैटा के नए कला व संस्कृति-स्थल का केंद्र जो कि समुदाय को एक ऐसा जीवंत, रोमांचक केंद्र स्थल प्रदान कर रहा है, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है और जिसका दिन-रात आनंद उठाया जा सकता है
- 2022 में खुलने का अनुमान है



चित्र: टाइपराइटर ब्लिकेंसडर्फ़र 6, 1906,
म्यूज़ियम ऑव एप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज़
फ़ोटो: मैरिन्को कोज़नोवस्की

बातचीत का हिस्सा बनें

एनएसडब्ल्यू सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नया म्यूज़ियम सिडनी के और उससे दूर रहने वाले लोगों के सहयोग से डिज़ाइन किया जाए।

यह भी महत्वपूर्ण है कि समुदाय अल्टिमो (Ultimo) में एक कला और सांस्कृतिक स्थान की संभावना के बारे में बातचीत में भाग ले जिसमें वर्तमान पावरहाउस म्यूज़ियम में MAAS की कुछ उपस्थिति पर विचार करना भी शामिल है।

पिछले विचार-विमर्शों के आधार पर बनाते समय, आने वाले महीनों में, पैरामैटा में नए संग्रहालय के लिए परिकल्पना और अल्टिमो वाले स्थान के भविष्य के बारे में अपने विचार बताने के लिए पश्चिमी सिडनी और सिडनी के सीबीडी में अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे।

शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, सरकार और समुदाय सभी क्षेत्रों के हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

आप अपनी बात निम्न तरीकों से कह सकते हैं:

- ऑनलाइन सर्वे पूरा करके
- पब्लिक मीटिंगों में भाग लेकर
- शॉपिंग परिसरों और सांस्कृतिक केंद्रों में हमारे पहुंचने पर हम से बात करके

विस्तारित बिज़िनेस केस के विकास में विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाएगा।

इसमें शामिल हों और
बातचीत का हिस्सा बनें

वेब: NEW.MAAS.MUSEUM

ईमेल: MAAS.PROJECT@ARTS.NSW.GOV.AU